

तुरंत रिलीज के लिए

ब्रैम्पटन सिटी काउंसिल ने आवश्यक चेहरा ढकना बाइ-लॉ को मंजूरी दी

ब्रैम्पटन के निवासियों को एक मिलियन गैर-मेडिकल मास्क बांटे जाएंगे

ब्रैम्पटन, ओनटैरियो (9 जुलाई, 2020) – कोविड-19 (COVID-19) को फैलने से रोकने में मदद के लिए, 10 जुलाई से शुरू करते हुए, ब्रैम्पटन में सभी इनडोर सार्वजनिक जगहों पर, गैर-मेडिकल मास्क (कपड़े के बने साधारण मास्क) पहनना या चेहरे को ढकना जरूरी होगा।

पील पब्लिक हेल्थ (Peel Public Health) की सलाह के बाद, कल ब्रैम्पटन सिटी काउंसिल (Brampton City Council) ने ब्रैम्पटन कोविड-19 संबंधी आवश्यक चेहरा ढकना (मैनडेटरी फेस कवर्गिंग्स) बाइ-लॉ (Brampton COVID-19 Mandatory Face Coverings By-law) पास किया, जो 1 अक्टूबर, 2020 तक लागू रहेगा। इस कार्रवाई में समुदाय को सहयोग करने के लिए, सिटी निवासियों को एक मिलियन गैर-मेडिकल मास्क बांट रही है। इसकी शुरुआत, ब्रैम्पटन के हर परिवार को डाक द्वारा तीन मास्क भेजने से की जा रही है।

इस अस्थायी बाइ-लॉ के अंतर्गत सार्वजनिक संस्थानों और कारोबारों को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके नियंत्रण वाली इनडोर सार्वजनिक जगहों पर, सभी लोग मास्क पहन रहे हैं या चेहरा ढक रहे हैं।

जिन जगहों पर गैर-मेडिकल मास्क पहनना या चेहरा ढकना जरूरी होगा, उनमें शामिल हैं:

- रिटेल स्टोर, जहां ग्राहकों को सामान बेचा जाता है और सेवाएं दी जाती हैं
- वे कारोबार, जहां मुख्य तौर पर भोजन बेचा जाता है, इनमें शामिल हैं, रेस्टोरेंट्स, सुपरमार्केट्स, ग्रासरी स्टोर्स, बेकरीज और सुविधा के सामान वाले स्टोर
- चर्च, मस्जिद और पूजा-पाठ वाले अन्य स्थान, सिवाय कोई धार्मिक रस्म या रीति करने के दौरान, जिसे चेहरा ढककर करना उचित न हो
- इनडोर सामुदायिक और मनोरंजन संबंधी फैसिलिटीज
- शॉपिंग मॉल्स या ऐसे ही स्थान, जिनमें कारोबार के एक से अधिक स्थान शामिल हों
- निजी देखभाल संबंधी सेवाएं प्रदान करने वाले कारोबार
- होटलों, मोटलों और छोटी अवधि वाली अन्य रिहायश जगहों के आम क्षेत्र
- लाइब्रेरियां, म्यूजियम, गैलरीज और ऐसी ही फैसिलिटीज
- बैंक हॉल, कन्वेंशंस सेंटर, अरेनाज, स्टेडियम और कार्यक्रमों वाले अन्य स्थान
- कोन्सर्ट वाले स्थान, थिएटर, सिनेमा, कैसीनो और मनोरंजन संबंधी अन्य संस्थान

- ओपन हाउस, प्रस्तुति सेंटर के तौर पर इस्तेमाल किए जाने वाले स्थान या रियल एस्टेट संबंधी उद्देश्यों के लिए अन्य फैसिलिटी
- सिटी ऑफ ब्रैम्पटन के अंदर चलने वाले, निजी ट्रांसपोर्टेशन कंपनी के वाहन
- म्युनिसिपल्टी द्वारा संचालित बिल्डिंग्स
- अन्य कारोबार, संगठन और स्थान, जिनका संचालन एमरजेंसी ऑर्डर्स (Emergency Orders) के अनुसार होता है या जिन्हें इसकी अनुमति मिली हो सकती है।

इस बाइ-लॉ का पालन न करने वाले व्यक्तियों और कारोबारियों पर, उल्लंघन के हर अपराध के लिए न्यूनतम \$500 और अधिकतम \$100,000 तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।

पाइ-लॉ कुछ व्यक्तियों को छूट देता है। इनमें शामिल हैं, वे व्यक्ति, जो मेडिकल कारणों से मास्क नहीं पहन सकते या चेहरा नहीं ढक सकते; दो वर्ष से कम उम्र के बच्चे; एमरजेंसी ऑर्डर्स के अनुसार एथलेटिक गतिविधि में शामिल व्यक्ति और अनुमति प्राप्त इनडोर संस्थान में खाने-पीने वाले व्यक्ति (जब प्रांत इनडोर भोजन करने को दुबारा खोलने की अनुमति दे)। पूरी सूची के लिए, brampton.ca/masks पर जाएं।

2 जुलाई से, ब्रैम्पटन ट्रांज़िट (Brampton Transit) की सभी बसों पर और टर्मिनल्स पर, गैर-मेडिकल मास्क पहनना जरूरी है।

गैर-मेडिकल मास्क पहनना या चेहरे को ढकना, पील पब्लिक हेल्थ द्वारा पेश की जाने वाली चार मुख्य सुरक्षात्मक कार्रवाईयों में से एक है। अन्य तीन कार्रवाईयां हैं, दूरी रखना, हाथ धोना या हैंड सैनिटाइज़र का प्रयोग करना और यदि आपको लगता है कि आपको कोविड-19 को सकता है या आप इसके संपर्क में आए हैं, तो टेस्ट करवाना। peelregion.ca/coronavirus/core-four/ पर जाएं। गैर-मेडिकल मास्कों को और चेहरे को ढकने और अन्य निजी सुरक्षात्मक उपकरण (पी.पी.ई.) (Personal Protective Equipment) (PPE) के सही प्रयोग के बारे में अधिक जानने के लिए, peelregion.ca/coronavirus/prevention/ पर जाएं।

अतिरिक्त जानकारी और कारोबारियों तथा फैसिलिटी संचालकों के लिए संसाधन, brampton.ca/masks पर उपलब्ध हैं।

कोविड-19 को फैलने से रोकने के लिए, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन के प्रयासों के बारे में ताज़ा जानकारी के लिए, brampton.ca/COVID19 पर जाएं।

हवाले

“जैसे कि हमने अपने सार्वजनिक स्वास्थ्य अधिकारियों से सुना है, आवश्यक मास्क, कोविड-19 को फैलने को रोकने का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। इस वायरस से परे आगे चलते रहने के लिए, हम सभी जरूरी सावधानियां बरतने के लिए तैयार हैं। इस कारण ही सिटी, ब्रैम्पटन के निवासियों को एक मिलियन गैर-मेडिकल मास्क बांट रही हैं। मैं पूरे जी.टी.ए. में मास्क पहनने के सामूहिक दृष्टिकोण से प्रोत्साहित हूँ। मुझे पता है कि ब्रैम्पटन में हमारे निवासी, समुदाय के स्वास्थ्य और सुरक्षा को प्राथमिकता देने और सुरक्षित रखने में अपनी भूमिका निभाना जारी रखेंगे।”

- पैट्रिक ब्राउन (Patrick Brown), मेयर, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

“हमने अपने समुदाय के प्रयासों के परिणाम देखे हैं क्योंकि हमारी सिटी, शहर को दुबारा खोलने की स्टेज 2 की ओर आगे बढ़ गई है। यह मेहनत जारी रहनी जरूरी है। इनडोर जगहों पर गैर-मेडिकल मास्कों के जरूरी प्रयोग जैसी कार्रवाईयों के बारे में हमारे लोकल स्वास्थ्य विशेषज्ञों की सलाह का पालन करके, हम बहारी के हमारे रास्ते को आगे बढ़ा सकते हैं।”

- मार्टिन मेडेइरोस (Martin Medeiros), रीजनल काउंसलर, वार्ड्स 3 और 4; लीड, मेयर्स रीओपनिंग एंड रिकवरी वर्किंग ग्रुप, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

“जैसे कि सिटी धीरे-धीरे दुबारा खुल रही है और सुरक्षित रूप से सेवाओं को पुनः शुरू कर रही है, हम हर वे कार्रवाई कर रहे हैं, जो कोविड-19 को फैलने से रोकने में मदद करेगी। गैर-मेडिकल मास्कों को जरूरी बनाना, हमारे समुदाय और अर्थव्यवस्था के बेहतर हित में है। हम अपने कर्मचारियों, निवासियों और कारोबारियों को सहयोग करने का हर संभव प्रयास करेंगे क्योंकि यह पूरे शहर में लागू हो रहा है।”

- डेविड बैरिंक (David Barrick), चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव अफसर, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

-30-

कैनेडा में सबसे अधिक तेजी से बढ़ने वाले शहरों में से एक के तौर पर, ब्रैम्पटन 650,000 लोगों और 70,000 कारोबारियों का घर है। हम जो भी करते हैं, लोगों को ध्यान में रखते हुए करते हैं। हम अपने विविध समुदायों से उत्साहित होते हैं, हम निवेश को आकर्षित करते हैं और हम तकनीक और वातावरण संबंधी नवीनता को आगे बढ़ाने के सफर पर हैं। हम एक ऐसा स्वस्थ शहर बनाने में प्रगति के लिए सहभागिता करते हैं, जो सुरक्षित, स्थिर व सफल हो। हमारे साथ [Twitter](#), [Facebook](#), और [Instagram](#) पर जुड़ें। www.brampton.ca पर और जानें।

मीडिया संपर्क

मोनिका दुग्गल (Monika Duggal)

कोऑर्डिनेटर, मीडिया एंड कम्युनिटी एन्गेजमेंट

स्ट्रैटजिक कम्युनिकेशन

सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

905-874-3426 | Monika.Duggal@brampton.ca